

## प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 22-02-2021

### **नौकरी के नाम पर पैसा लेकर ठगी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 विनोद कुमार सिंह मय टीम को अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं पर्दाफाश हेतु लगाया था। टीम द्वारा लगातार तलाश व दबिश की कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में थाना रामगढताल की पुलिस द्वारा आज दिनांक 22.02.2021 को अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र श्री मृगेश मिश्रा निवासी सड़सड़ा बुजुर्ग तरयापार थाना गोला जनपद गोरखपुर हा0मु0 मोहल्ला इन्द्रपुरी कालोनी थाना सिगरा जनपद वाराणसी को थाना क्षेत्र सिगरा जनपद वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 767/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर में अभियुक्त को जेल भेजा गया। अभियुक्त पुरूषोत्तम मिश्रा काशी विद्या पीठ वाराणसी में कनिष्ठ लिपिक के पद कार्यरत है वही से अपना नेटवर्क फैलाकर अभियुक्त द्वारा श्री जय नारायण सिंह पुत्र स्व0 गौरी शंकर सिंह निवासी कोटवा थाना ऊरूवा बाजार जनपद गोरखपुर हा0मु0 सर्वोदय नगर आजाद नगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर से 7,77,000 रूपये व श्री श्यामानन्दन पुत्र श्री अमनू नि0 हटवार थाना बाँसगाँव जनपद गोरखपुर से 5,75,000 रूपये व अन्य व्यक्तियों से नौकरी के नाम पर पैसा लिया था।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. पुरूषोत्तम मिश्रा पुत्र श्री मृगेश मिश्रा निवासी सरसड़ा बुजुर्ग तरयापार थाना गोला जनपद गोरखपुर हा0मु0 किराये का मकान मोहल्ला इन्द्रपुरी कालोनी थाना सिगरा जनपद वाराणसी

#### आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 767/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह चौकी प्रभारी आजाद नगर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री अजय कुमार राय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
5. का0 अनिल कुमार यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।